

पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

(दूसरी मंजिल, कोर-8, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003)

निविदा आमंत्रण सूचना

संदर्भ सं. पीपीएसी/आईटी/7000/खरीद/611

दिनांक: 31.05.2019

पीपीएसी नीचे दर्शाए कार्यों के लिए एकल बोली पद्धति (मूल्य बोली) के अधीन मुहरबंद सीमित निविदा आमंत्रित करती है।

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	बयाना राशि (*) रुपयों में	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	निविदा खोलने की तिथि और समय
पीपीएसी / आईटी / 7000 / खरीद / 611	एचपी प्रिंटर उपभोग्य सामग्रियों की खरीद	रु. 6193/-	22.06.2019 प्रातः 11:00 बजे	24.06.2019 प्रातः 11:00 बजे

सीमित निविदा खोलने का दिन अनिर्धारित छुट्टी होने की स्थिति में, निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी। समय प्रातः 11.00 बजे रहेगा और स्थान पूर्ववत् रहेगा।

उपर्युक्त दर्शाए पते पर निविदाकर्ताओं / बोलीदाताओं की उपस्थिति में नियत तारीख और समय पर मूल्य बोली खोली जाएगी। सभी बोलीदाता / निविदाकर्ता अनुसूची के अनुसार उपस्थित हों, इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी।

बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पे ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है। जिला उद्योग केंद्रों या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय को उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए अग्रिम संशोधन के साथ ईएमडी से छूट दी जाएगी। बयाना राशि (ईएमडी) या छूट प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रति को, जैसा लागू हो, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा। बयाना जमा राशि (ईएमडी) या छूट प्रमाण पत्र की मुहर लगी कॉपी के बिना प्राप्त बोली को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

सभी तरह से पूर्ण बोली दस्तावेज को नियत तारीख और समय पर (जो 22.06.2019, प्रातः 11:00 बजे है) पीपीएसी, स्कोप कॉम्प्लेक्स (2 मंजिल, कोर 8, लोधी रोड) में रखे एक ड्रॉप बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा।

कृपया ध्यान दें कि ओईएम एचपी की सलाह के अनुसार, यह सीमित निविदा केवल ओईएम (एचपी) अधिकृत पार्टियों के लिए लागू है। अनचाही बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक (आईटी)